



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1981/अग्राहायण 12, 1903

No. 392] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1981/AGRAHAYANA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1981

सांकांनि 628 (अ) :—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 267/79-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 4 अक्टूबर, 1979 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची के मद सं. 27 के अन्तर्गत आने वाले एल्युमिनियम को, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना उसके मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है।

[सं 192/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/कां.सं. 354/20/81-टी और यू]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd December, 1981

G.S.R. 628(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India

1029 GI 81

in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 267/79-Central Excises, dated the 4th October, 1979, the Central Government hereby exempts aluminium, falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of forty per cent ad valorem.

[No. 192/81-Central Excises/F. No. 354/20/81-TRU]

सांकांनि 629(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें उपाध्द सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद 27 की उपमदों के जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं अन्तर्गत आने वाले एल्युमिनियम को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पादन शुल्क से छूट देती है जितना स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

सारणी

क्रम सं.	उपमद	वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3	4
1	(क) (i)	किसी अशोधित रूप में एल्यु-मिनियम जिसके अन्तर्गत	मूल्य का बीस प्रतिशत

1	2	3	4
		सिल्लियाँ, शालाकें, ब्लॉक, स्लैब, विलेट, गोलियाँ तथा छर्रे होते हैं।	
2. (क) (ii)	तार शालाकें	मूल्य का इक्कीस प्रतिशत।	
3. (क) (ii)	प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पादित तार छर्रे।	मूल्य का इक्कीस प्रतिशत।	
4. (क) (ii)	अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित तार छर्रे	दो सौ तैसीस रुपये प्रति मीटर टन	
5. (क) (ii)	ऐसी कास्टिंग जो अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों	मूल्य का छब्बीस प्रतिशत	
6. (कक)	अपशिष्ट और स्कैप	मूल्य का बीस प्रतिशत	
7. (ख)	विनिर्मितियाँ अर्थात् प्लेटें, शीटें, सकिल 0.56 मि०मी० और उससे अधिक मोटाई वाले सकिल किन्तु 2.00 मि०मी० से अनधिक मोटाई वाले सकिलों से भिन्न किसी रूप में या आकार वाले स्ट्रिप शेप और सेक्शन अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों	मूल्य का छब्बीस प्रतिशत	
8. (ख)	सकिल जिनकी मोटाई 0.56 मि०मी० और उससे अधिक है किन्तु 2.00 मि०मी० से अधिक नहीं है।	मूल्य का पन्नाह प्रतिशत	
9. (ग)	कोयला	मूल्य का पन्नीस प्रतिशत	
10. (घ)	बहिर्घटित पाइपों और ट्यूबों में भिन्न पाइप और ट्यूब	मूल्य का छब्बीस प्रतिशत	
11. (ङ)	बहिर्घटित शेप और सेक्शन जिनके अन्तर्गत बहिर्घटित पाइप और ट्यूब भी हैं	मूल्य का छब्बीस प्रतिशत	
12. (च)	आधान, सादे सेकरलेपित या मुद्रित या सेकर लेपित और मुद्रित।	मूल्य का छब्बीस प्रतिशत	

परन्तु उक्त सारणी के कम सं० 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के सामने विनिर्दिष्ट माल के संबंध में और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित किसी वर्णन के एल्यूमिनियम से विनिर्मित माल पर, जिस पर सीमाशुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्योगीय उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का संवाय कर दिया गया है, जिसके संबंध में इस अधिसूचना में अन्तर्लिखित छूट तभी लागू होगी जब केन्द्रीय उत्पादशुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से अभिन्न पंक्ति के अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, इस अधिसूचना या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 264 सीमा शुल्क तारीख 3 दिसम्बर, 1981 में विनिर्दिष्ट दरों पर उक्त उत्पादशुल्क या अतिरिक्त शुल्क का संवाय कर दिया गया था।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “प्राथमिक उत्पादक” पद से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो बाक्साइट या एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है।

[सं० 193/81—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/का० सं० 354/20/81—टी आर यू]

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aluminium of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in Column (4) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Sub-item	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1. (a)(i)		Aluminium in any crude form including ingots, bars, blocks slabs, billets, shots and pellets.	Twenty per cent <i>ad valorem</i> .
2. (a) (ii)		Wire bars.	Twenty-one per cent <i>ad valorem</i> .
3. (a)(ii)		Wire rods produced by primary producers.	Twenty-one per cent <i>ad valorem</i> .
4. (a) (ii)		Wire rods produced by others.	Rupees two hundred and thirty-three per metric tonne.
5. (a)(ii)		Castings not otherwise specified.	Twenty-six per cent <i>ad valorem</i> .
6. (aa)		Waste and scrap.	Twenty per cent <i>ad valorem</i> .
7. (b)		Manufactures, namely, plates, sheets, circles (other than circles having thickness of and above 0.56 mm. but not above 2.00 mm.) strips, shapes and sections in any form or size, not otherwise specified.	Twenty-six per cent <i>ad valorem</i> .
8. (b)		Circles having thickness of and above 0.56 mm. but not above 2.00 mm.	Fifteen per cent <i>ad valorem</i> .
9. (c)		Foils.	Twenty-five per cent <i>ad valorem</i> .
10. (d)		Pipes and tubes other than extruded pipes and tubes.	Twenty-six per cent <i>ad valorem</i> .
11. (e)		Extruded shapes and sections including extruded pipes and tubes.	Twenty-six per cent <i>ad valorem</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	(f)	Containers, plain, lacque- red or printed or lac- quered and printed.	Twenty-six per cent ad valorem.

Provided that in respect of goods specified against Serial Nos. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of the said Table and manufactured from aluminium of any description mentioned in column (3) of the said Table on which the duty of excise or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) has been paid, the exemption contained in this notification in respect of such goods shall apply only if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the said duty of excise or the additional duty, as the case may be, has been paid at the rates specified in this notification or in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 264 -Customs, dated the 3rd December, 1981.

Explanation—For the purpose of this notification, the expression "Primary producer" means any person licensed or registered under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) who produces aluminium from bauxite or alumina.

[No. 193/81-Central Customs/F. No. 354/120/81-TRU]

सां.कां.निं. 630 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और बैंकारी विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विरुद्धित करती है, अर्थात् :—

(1) सं. 149/76 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सारणी 29 अप्रैल, 1976।

(2) सं. 150/76 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सारणी 29 अप्रैल, 1976।

[सं. 194/81 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/कां. सं. 354/20/81-टी प्रार य]

G.S.R. 630(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in Department of Revenue and Banking, namely :—

(1) No. 149/76-Central Excises, dated the 29th April, 1976.

(2) No. 150/76-Central Excises, dated the 29th April, 1976.

[No. 194/81-Central Excises/F. No. 354/20/81-TRU]

सां.कां.निं. 631 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 34 के उप मद 1(1) के अधीन आने वाले विद्युत्चालित दो पहिए वाले मोटर यानों को, उन पर उद्यहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "विद्युत्चालित दो पहिए वाले मोटर यान" पद से ऐसे दो पहिए वाले मोटर यान अभिप्रेत हैं, जो ऐसे दो पहियों वाले मोटर यानों में लगे हुई एक या अधिक विद्युत् बैटरियों से प्राप्त विद्युत् ऊर्जा से ही चलाए जाते हैं।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1982 तक और इसे सम्मिलित करते हुए, प्रभावी रहेगी।

[सं. 195/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/4 कां.सं. 341/11/80-टी प्रार य]

G.S.R. 631(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electrically operated two-wheeled motor vehicles, falling under sub-item I(1) of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

Explanation :—For the purpose of this notification, the expression 'electrically operated two-wheeled motor vehicles' means two-wheeled motor vehicles which are run solely on electrical energy derived from one or more electric batteries fitted to such two-wheeled motor vehicles.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1982.

[No. 195/81-Central Excises/F. No. 341/11/80-TRU]

सां.कां.निं. 632 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एल्युमिनियम की सिक्कों या एल्युमिनियम बार छड़ों को जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत आती हैं, जब इनका भारत में आयात किया जाता है, उन पर उद्यहणीय सीमा-शुल्क के, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक है।

[सं. 259/सीमा शुल्क/कां. सं. 354/70/81-टी प्रार य]

G.S.R. 632(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts aluminium ingots of aluminium wire rods, falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 15 per cent ad valorem.

[No. 259/Customs/F. No. 354/20/81-TRU]

सां.कां.निं. 633 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर की ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, ऐसे एल्युमिनियम विनिर्माण की जिसमें एल्युमिनियम-97 प्रतिशत से अधिक है, अर्थात् प्लेट, शीट, रॉलिंग और स्ट्रिप जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत आते हैं, उस पर उद्यहणीय सीमा शुल्क के, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक है।

[सं. 260/सीमाशुल्क/कां.सं. 354/20/81-टी प्रार य]

G.S.R. 633(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts aluminium manufactures, containing more than 97 per cent of aluminium, namely, plates, sheets, circles and strips, falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from so much of that portion of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 45 per cent ad valorem.

[No. 260/Customs/F. No. 354/20/81-TRU]

सांकांनि० 634 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एल्युमिनियम फोयल को जिसमें, निश्चित और रूपित एल्युमिनियम फोयल से भिन्न, किन्तु जिसमें किसी भी रूप और आकार कोइल सम्मिलित है जो सामान्यतः चाय की पेटियों के भाग और फिटिंग में प्रयोग की जाती है, एल्युमिनियम 97 प्रतिशत से अधिक है, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत आता है, उस पर उच्च-गहणीयसीमा शुल्क के जो उसकी पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 261-सीमा शुल्क/का० सं० 354/20/81-टी आर यू]

G.S.R. 634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts aluminium foil containing more than 97 per cent of aluminium other than etched or formed aluminium foil but including foil in any form or size ordinarily used as parts and fittings of tea chests, falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from so much of that portion of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 35 per cent. ad valorem.

[No. 261-Customs/F. No. 354/20/81-TRU]

सांकांनि० 635 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यथास्थिति, भारत सरकार के राजस्व और बैंककारी विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की, न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं को विच्छिन्न करती है :—

#### अनुसूची

1. सं० 264 सीमा शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976
2. सं० 265 सीमा शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976
3. सं० 173 सीमा शुल्क, तारीख 8 अगस्त, 1977
4. सं० 74 सीमा शुल्क, तारीख 27 मार्च, 1981
5. सं० 85 सीमा शुल्क, तारीख 30 मार्च, 1981

[सं० 262-सीमा शुल्क/का० सं० 354/20/81 टी आर यू]

G.S.R. 635(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as the case may be, specified in the Schedule below :—

#### THE SCHEDULE

1. No. 264-Customs, dated the 2nd August, 1976.
2. No. 265-Customs, dated the 2nd August, 1976.
3. No. 173-Customs, dated the 8th August, 1977.
4. No. 74-Customs, dated the 27th March, 1981.
5. No. 85-Customs, dated the 30th March, 1981.

[No. 262/Customs/F. No. 354/20/81-TRU]

सांकांनि० 636 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 130 सीमा शुल्क तारीख 12 मई, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्यांक 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का मोप किया जाएगा।

[सं० 263-सीमा शुल्क/का० सं० 354/20/81-टी आर यू]

G.S.R. 636(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 130-Customs, dated the 12th May, 1981, namely :—

In the Schedule to the said notification, Serial No. 73 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 263-Customs/F. No. 354/20/81-TRU]

सांकांनि० 637 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उस माल को जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 27 के अन्तर्गत आता है और इससे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, अब इसका आयात भारत में किया जाए उतने प्रतिशत सीमा शुल्क से, जो सीमा शुल्क और टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उच्चगहणीय है, छूट देती है जितना सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक है :

#### सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	सीमा शुल्क की दर
1.	2.	3.
1.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 27 की उप मद (क) (i) और (कक) के अन्तर्गत आने वाला सभी माल	मूल्य का 22 प्रतिशत
2.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 27 की उप मद (क) (ii) के अन्तर्गत आने वाली तार सलाके	मूल्य का 23.1 प्रतिशत
3.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 27 की उप मद (ii) के अन्तर्गत आने वाली तार छड़े	मूल्य का 23.1 प्रतिशत
4.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 27 की उप मद (ii) के अन्तर्गत आने वाली कार्टिज	मूल्य का 28.6 प्रतिशत

1	2	3	(1)	(2)	(3)
5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 27 की उप मद (ख) के अन्तर्गत आने वाला सभी माल किन्तु ऐसे सर्किलों को छोड़कर जिनकी माटाई 0.56 मि०मी० या उससे अधिक है किन्तु 2.00 मि०मी० से अधिक नहीं है।	मूल्य का 28.6 प्रतिशत		4. Castings falling under sub-item (a)(ii) of Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	28.6% <i>ad valorem</i>	
6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 27 की उप मद (ख) के अन्तर्गत आने वाला सर्किल जिनकी माटाई 0.56 मि०मी० या उससे अधिक है किन्तु 2.00 मि०मी० से अधिक नहीं है।	मूल्य का 16.5 प्रतिशत		5. All goods falling under sub-item (b) of Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), but excluding circles having thickness of and above 0.56 mm. but not above 2.00 mm.	28.6% <i>ad valorem</i>	
7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 27 की उप मद (ग) के अन्तर्गत आने वाला सभी माल किन्तु निम्नलिखित और कपित एल्युमिनियम पोयलों को छोड़कर	मूल्य का 27.5 प्रतिशत		6. Circles having thickness of—and above 0.56 mm but not above 2.00 mm. falling under sub-item (b) of Item No. 27 of the First Scheduled to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)	16.5% <i>ad valorem</i>	
8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 27 की उप मद (घ), (ङ) और (च) के अन्तर्गत आने वाला सभी माल।	मूल्य का 28.6 प्रतिशत		7. All goods falling under sub-item (c) of Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of the 1944) but excluding etched or formed aluminium foil.	27.5% <i>ad valorem</i>	
			8. All goods falling under sub-items (d), (e) and (f) of the Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	28.6% <i>ad valorem</i>	

[No. 264 Customs/F. No. 354/20/81-TRU]

[सं० 264—सीमा शुल्क/का० सं० 354/2/81 टी प्रार 5]

**GSR 637(E) :—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of the additional duty, which is leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as in excess of the rates specified in column (3) of the Table.

THE TABLE

Sl. No.	Description of the goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	All goods falling under sub-items (a)(i) and (aa) of Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	22% <i>ad valorem</i> .
2.	Wire bars falling under sub-item (a) (ii) of Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	23.1 % <i>ad valorem</i>
3.	Wire rods falling under sub-item (a) (ii) of Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	23.1% <i>ad valorem</i>

सा०का०वि० 638 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसका यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 85.01 के अन्तर्गत आने वाले स्थायी लघुधकीय क्षेत्र डी०सी० मोटरों को, जब उनका दो पहियों वाले विद्युत चालित यानों के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाता है,—

(क) उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से जो उस पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो और मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक है; और

(ख) द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, छूट देती है।

परन्तु आयातकर्ता ऐसे प्राकृत में और ऐसी राशि के लिए, जो सहायक सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बन्धवस्तु निष्पादित करके उतने माल के संबंध में जिसका सहायक सीमा शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है इस शुल्क के, जो उतने माल पर उद्ग्रहीत किया गया होता है किन्तु इसमें अतिरिक्त छूट के कारण नहीं किया जा सका और जिसका आयात किए जाने के समय संदाय किया गया था बीच के अन्तर का संदाय करने के लिए स्वयं को बाध्य करना है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "विद्युतचालित दो पहिए वाले मोटर यान" पद से ऐसे दो पहिए वाले मोटर यान अभिप्रेत हैं, जो ऐसे दो पहियों वाले मोटर यानों में लगे हुई एक या अधिक विद्युत बैटरियों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा से ही चलाए जाते हैं।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1982 तक और इसे सम्मिलित करते हुए प्रभावी रहेगी।

[सं० 265—सीमा शुल्क/का० सं० 341/11/80—टीप्रार 5]

**G.S.R. 638(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts permanent magnet field D.C. motors, falling under Heading No. 85.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of electrically operated two-wheeled motor vehicles, from—

- (a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule as is in excess of 25 per cent ad valorem ; and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act :

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs binds himself to pay on demand in respect of such quantity of goods as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

**Explanation :—**For the purpose of this notification the expression 'electrically operated two-wheeled motor vehicles' means two-wheeled motor vehicles which are run solely on electrical energy derived from one or more electric batteries fitted to such two-wheeled motor vehicles.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1982.

[No. 265-Customs/F. No. 341/11/80-TRU]

सां.कां.वि. 639 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 129-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 में निम्नलिखित धीरे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्यांक 205 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि धृत स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"206. सं. 265 सीमा शुल्क तारीख 3 दिसम्बर, 1981"।

[संख्या 266-सीमा शुल्क/फा.सं. 341/11/80-टी.एम.]

जे. श्रीधरन, प्रवर सचिव

**G.S.R. 639(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 129-Customs, dated the 12th May, 1981, namely :—

In the Schedule to the said notification after Serial No. 205 and the entry relating thereto, the following "Serial No. and entry shall be inserted namely :—

"206. No. 265-Customs, dated the 3rd December, 1981."

[No. 266-Customs/F. No. 341/11/80-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.